

स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी.ए.)

1. आधार पाठ्यक्रम (हिंदी)

BHDF-101:

हिंदी में आधार पाठ्यक्रम - 01

हिंदी में आधार पाठ्यक्रम को पढ़कर विद्यार्थी हिंदी बोलने, लिखने एवं सामान्य सम्प्रेषण की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

मूल्यांकन

सत्रीय कार्य और सत्रांत परीक्षा

FHD-02:

हिंदी में आधार पाठ्यक्रम - 02

हिंदी के इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के दौरान छात्र साहित्य की कुछ विशिष्ट विधाओं का अध्ययन करेंगे और लेखन और मौखिक सम्प्रेषण के सन्दर्भ में सम्प्रेषण के विशिष्ट रूपों का अभ्यास करेंगे।

मूल्यांकन

सत्रीय कार्य और सत्रांत परीक्षा

2. ऐच्छिक पाठ्यक्रम (हिंदी)

BHDE-101:

हिंदी गद्य

इस पाठ्यक्रम में हिंदी गद्य के उद्भव और विकास का परिचय दिया गया है।

पाठ्यक्रम में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध तथा अन्य विधाओं से सम्बंधित प्रतिनिधि रचनाओं को सम्मिलित किया गया है।

विद्यार्थी को व्याख्या और विश्लेषण के माध्यम से रचना की अंतर्वस्तु और भाषा शैली के विभिन्न पक्षों के बारे में बताया गया है।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

EHD-02:

हिंदी काव्य

इस पाठ्यक्रम में हिंदी काव्य के उद्भव और विकास का परिचय दिया गया है।

इसकी प्रवृत्तियों के साथ प्रतिनिधि रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन किया जायेगा। काव्य कृतियों के अध्ययन के सन्दर्भ में विविध रचना पक्षों का परिचय देते हुए व्याख्या, विश्लेषण और मूल्यांकन का अभ्यास कराया जायेगा।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

EHD-03:

हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय

इस पाठ्यक्रम में साहित्य के अध्ययन के सन्दर्भ में इतिहास संबंधी अवधारणा का परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काल विभाजन और विभिन्न कालों की सामाजिक पृष्ठभूमि का परिचय कराया जायेगा। आदिकाल से आधुनिक काल तक के साहित्य का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा।

साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं उनके प्रतिनिधि रचनाकारों और रचनाओं का अध्ययन कराया जायेगा।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

EHD-04:

मध्यकालीन भारतीय साहित्य : समाज और संस्कृति

इस पाठ्यक्रम में मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन का परिचय, भक्ति की विभिन्न धाराओं का परिचय और भक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक आधारों का परिचय कराया जायेगा।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

EHD-05:

आधुनिक भारतीय साहित्य : राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण

इस पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान विकसित हुई राष्ट्रीय चेतना और 19वीं सदी में विकसित हुए नवजागरण आन्दोलन की सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि का परिचय दिया जायेगा। इस दौरान लिखे गए विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य पर राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण का प्रभाव पर प्रकाश डाला जायेगा।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

BHDE-106:

हिंदी भाषा : इतिहास और वर्तमान

इस पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में हिंदी भाषा का स्थान और सह-सम्बन्ध को स्पष्ट किया जायेगा। इसके अलावा संस्कृत से आधुनिक हिंदी का विकास क्रम की जानकारी दी जाएगी।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

BHDE-107:

हिंदी संरचना

इस पाठ्यक्रम में हिंदी की वर्णमाला से लेकर प्रोक्ति के स्तर तक भाषा का व्यावहारिक पक्ष उभारा गया है।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

BHDE-108:

प्रयोजनमूलक हिंदी

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है- प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करना, कार्यालय में प्रयुक्त हो रही हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालना और साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में प्रयोग हो रही हिंदी की जानकारी देना है।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

3. व्यवहार मूलक पाठ्यक्रम (हिंदी)

ATR-01: अनुवाद

इसमें कुल 8 खंड हैं। पहले 2 खंड में अनुवाद की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है। शेष 6 खंड हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के व्यावहारिक पक्ष से सम्बद्ध है।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

BHDA-101: समाचार पत्र और फीचर लेखन

इस पाठ्यक्रम में फीचर लेखन से सम्बंधित कुछ सैद्धांतिक जानकारी दी गई है।
पुस्तक समीक्षा, साक्षात्कार, यात्रा - लेखन, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक आदि विभिन्न समूहों से सम्बंधित फीचर लेखन पर इस पाठ्यक्रम में विचार किया गया है

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा

BPRA -101: रेडियो लेखन

इस पाठ्यक्रम में उन तमाम पहलुओं पर विचार किया गया है जो रेडियो लेखन के लिए आवश्यक हैं
रेडियो लेखन के लिए सिद्धांत और उसके विभिन्न प्रकारों आदि की जानकारी दी गई है।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और
सत्रांत परीक्षा